



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2013/6 पौष, 1935

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

*Shimla, the December 20, 2013*

**No. HHC/GAZ/14-52/74-VI.**—In the interest of administration, Ms. Anshu Chaudhary, Shri Nishant Verma, Ms. Pratibha Negi, Ms. Anita Sharma, Shri Baljeet, Shri Jitender Kumar, Ms. Abha Chauhan and Shri Ajay Kumar on their appointment as Civil Judges (Jr. Division) *vide* H.P. Government notification No. Home-B (B) 6-4/2006-VI-100 dated 29-11-2013, are detailed to

undergo induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla with immediate effect till further orders and posted for the purpose of withdrawal of their salary etc. as under:—

1. **Ms. Anshu Chaudhary** as Civil Judge (Junior Division)-*cum*-Judicial Magistrate (II) Amb District, Una, H.P.
2. **Shri Nishant Verma**, as Civil Judge (Junior Division)-*cum*-Judicial Magistrate Ani, H.P.
3. **Ms. Pratibha Negi**, as Civil Judge (Junior Division)-*cum*-Judicial Magistrate (II), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
4. **Ms. Anita Sharma** as Civil Judge (Junior Division)-*cum*-Judicial Magistrate (IV), Shimla, H.P.
5. **Shri Baljeet**, as Civil Judge (Junior Division)-*cum*-Judicial Magistrate (III), Amb, District Una, H.P.
6. **Shri Jitender Kumar**, as Civil Judge (Junior Division)-*cum*-Judicial Magistrate (II), Sarkaghat, District Mandi, H.P.
7. **Ms. Abha Chauhan**, as Civil Judge (Junior Division)-*cum*-Judicial Magistrate (II), Solan, District Solan, H.P.
8. **Shri Ajay Kumar**, as Civil Judge (Junior Division)-*cum*-Judicial Magistrate, Jubbal, District Shimla, H.P.

**BY ORDER OF THE HON'BLE  
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH  
REGISTRAR GENERAL.**

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

*Shimla, the 18th December, 2013*

**No. HHC/GAZ/14-52/74-VI.**—In the interest of administration Shri Aslam Beg Administrator-Assistant Coordinator, Main Mediation Centre, H.P. High Court, Shimla, who was deputed to co-ordinate and work with Central Project Coordinate and Computer Cell is withdrawn and will remain posted as Administrator-Assistant Coordinator, Main Mediation Centre, H.P. High Court, Shimla, with immediate effect.

**BY ORDER OF HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE  
REGISTRAR GENERAL.**

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

*Shimla, the 16th December, 2013*

**No. HHC/GAZ/14-324/2011.**—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of four days' commuted leave *w.e.f.* 19-11-2013 to 22-11-2013 in favour of

Shri Vishal Bhamnotra, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC-III, Ghumarwin, District Bilaspur, H.P.

Certified that Shri Vishal Bhamnotra has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vishal Bhamnotra would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC-III, Ghumarwin, District Bilaspur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 20<sup>th</sup> December, 2013*

**No. HHC/GAZ/ 14-303/09.**—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 12 days' earned leave *w.e.f.* 2-12-2013 to 13-12-2013 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 14-12-2013 and 15-12-2013 in favour of Ms. Vijay Laxmi, Civil Judge (junior Division)-cum-JMIC (II), Kasauli, District Solan, H.P.

Certified that Ms. Vijay Laxmi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Vijay Laxmi would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Kasauli, District Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**

**NOTIFICATION**

*Shimla the 23<sup>rd</sup> December, 2013*

**No. HHC/GAZ/ 14-331/2013.**—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days' commuted leave for 6-12-2013 and 7-12-2013 in favour of Ms. Madhvi Singh, Civil Judge (Junior Division)-cum-JM (VI), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Madhvi Singh has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Madhvi Singh would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JM (VI), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 24<sup>th</sup> December, 2013*

**No. HHC/GAZ/14-207/92.**—Consequent upon the appointment of Shri Naresh Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I) as Administrative Officer, H.P. State Legal Services Authority *vide* notification No. LLR-A(4)2/92 dated 13-12-2013, issued by the L. R.-cum-Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order to relieve the above named officer from the present assignment, with immediate effect, to enable him to join new assignment.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**

**NOTIFICATION**

*Shimla the 23<sup>rd</sup> December, 2013*

**No. HHC/GAZ/ 14-255/2002-I.**—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 05 days' commuted leave *w.e.f.* 25-11-2013 to 29-11-2013 in favour of Smt. Kanta Verma, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (II), Amb, District Una, H.P.

Certified that Smt. Kanta Verma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanta Verma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (II), Amb, District Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

## पंचायती राज विभाग

## अधिसूचना

शिमला-171009, 12 दिसम्बर, 2013

**संख्या पीसीएच-एचए (1) 18/2008-II.**—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2013 के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन सरकार की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 11 जुलाई, 2013 द्वारा आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 22 जुलाई, 2013 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(3) 6/94-तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2013 है।

**2. नियम 12 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 12 के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग स्वविवेकानुसार, इन नियमों के अधीन निर्वाचन हेतु प्रारूप निर्वाचक नामावली को तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े आधार (डाटा वेस) का उपयोग कर सकता है।”।

**3. नियम 35 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 35 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ, सम्बद्ध पंचायत द्वारा प्रारूप-18 क में जारी अदेय प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।”।

**4. प्रारूप 18 का संशोधन.**—उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्रारूप-18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“ प्रारूप-18  
(नियम 35 देखें)  
नामांकन पत्र**

- \* ग्राम सभा ..... के ..... (निर्वाचन क्षेत्र) से सदस्य का निर्वाचन।
- \* ग्राम सभा ..... से प्रधान का निर्वाचन।
- \* ग्राम सभा ..... से उप प्रधान का निर्वाचन।
- \* पंचायत समिति ..... के ..... निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन
- \* जिला परिषद ..... के ..... निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन।

मैं, उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नामांकन करता हूँ—

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता या पति का नाम .....

डाक पता .....

उसका नाम ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला परिषद् के ..... निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या ..... पर दर्ज है।

मेरा नाम ..... ग्राम सभा/ पंचायत समिति/ जिला परिषद् के ..... निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या ..... पर दर्ज है।

तारीख .....

प्रस्थापक का नाम और हस्ताक्षर

मैं,..... उपर्युक्त वर्णित अभ्यर्थी, इस नामांकन से अनुमत हूँ और एतद्वारा घोषित करता हूँ कि—

(क) मैंने ..... वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

(ख) मैंने राज्य सरकार, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या सहकारी सोसाइटी से सम्बन्धित या उन द्वारा या उनकी ओर से पट्टे पर ली गई अथवा अधिगृहीत की गई, किसी भूमि का अधिक्रमण नहीं किया है और अधिनियम के अधीन किसी अन्य निरर्हता से भी ग्रस्त नहीं हूँ।

(ग) मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मैं..... जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो अनुसूचित जाति/जनजाति है।

(घ) मैंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 (2) के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से जारी यथा अपेक्षित "अदेय प्रमाण-पत्र" संलग्न कर दिया है।

स्थान..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

तारीख.....

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या.....

यह नामांकन पत्र मुझे ..... अभ्यर्थी/ प्रस्थापक द्वारा ..... (स्थान) पर ..... (समय) पर ..... (तारीख) को परिदत्त किया गया था।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर

(नामांकन पत्र को मंजूर या नामंजूर करने का रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय)

मैंने विधि के अनुसार नामांकन पत्र की जाँच-पड़ताल कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्नप्रकार से है:—

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर

उपर्युक्त अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को न तो अस्वीकृत किया गया है और न ही उसने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ली है और इसलिए एतद्वारा उसे.....(प्रतीक का नाम) आबंटित किया जाता है।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर

**नामांकन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा तथा नाम वापस लेने की सूचना**  
(इसे नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या .....

ग्राम पंचायत.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य/प्रधान/  
उप-प्रधान/पंचायत समिति.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन/ जिला  
परिषद.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन के लिए  
श्री/श्रीमती/कुमारी....., अभ्यर्थी के नामांकन पत्र अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा मुझे.....  
..(तारीख).....(समय) पर मेरे कार्यालय में परिदत्त किए गए थे। सभी नामांकन पत्रों  
की (स्थान).....(तारीख).....(समय) पर संवीक्षा की जाएगी।

अभ्यर्थिता.....(तारीख).....(समय) तक वापिस ली जा सकेगी।  
अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए नियत समय के अवसान के तुरन्त पश्चात्, प्रतीक आबंटित किया जा सकेगा।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर

\* जो लागू न हो उसे काट दें।”।

**5. प्ररूप-18 'क' का अंतस्थापन.**—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-18 के पश्चात् निम्नलिखित नया  
प्ररूप 18—'क' अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**“प्ररूप 18—क  
(नियम 35 (2) देखें)**

**अदेय प्रमाण पत्र**

.....ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् कार्यालय.....जिला.....

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत अभिलेख के अनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम पंचायत..... ग्राम.....

डाकघर..... विकास खण्ड..... जिला.....हिमाचल प्रदेश से, पंचायत द्वारा  
अधिरोपित कर का कोई बकाया या सभा, समिति या जिला परिषद् को देय किसी प्रकार का बकाया या  
प्रतिधारित रकम, जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है, की कोई रकम देय नहीं है।

सचिव  
जिला परिषद्/पंचायत समिति.....  
सचिव/सहायक.....  
ग्राम पंचायत.....  
विकास खण्ड.....  
जिला.....

**टिप्पणः—\*** ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

\*\*\* जो लागू न हो उसे काट दें।\*\*

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

*[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)18/2008-I-Amendment, dated 11-7-2013 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].*

## PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171 009, the 12<sup>th</sup> December, 2013*

**No. PCH-HA(1)18/2008-I.**—Whereas, the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2013 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 22<sup>nd</sup> July, 2013 for inviting objections and suggestions vide Government notification of even number dated 11th July, 2013 under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 ;

And whereas, no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, notified vide notification No.PCH-HA (3)6/94, dated 7th February, 1995 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh (Extra ordinary) on 8th February, 1995, namely :-

**1. Short title.**—These rules shall be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment, Rules, 2013.

**2. Amendment of rule 12.**—In rule 12 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the State Election Commission may in its own discretion, use data base of the Election Commission of India for the preparation of the draft electoral rolls for the elections under these rules.”

**3. Amendment of rule 35.**—In rule 35 of the „said rules“, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that every nomination paper shall be accompanied by No Dues Certificate issued by the concerned Panchayat in Form-18-A.”



**4. Amendment of Form-18.**—For existing Form-18 appended to the said rules, the following shall be substituted, namely :-

**“FORM-18  
(See rule 35)**

**NOMINATION PAPER**

\*Election of member from.....(Constituency) of .....  
Gram Sabha.

\*Election of Pradhan from ..... Gram Sabha.

\*Election of Up-Pradhan from ..... Gram Sabha.

\*Election of member to Panchayat Samiti ..... from  
..... constituency.

\*Election of member to Zila Parishad.....  
from..... constituency.

I, nominate as a candidate for above election-

Candidate,,s Name .....

Father,,s or Husband,,s name .....

Postal Address .....

His name is entered at serial No. ....

in the electoral roll for constituency of .....

Gram Sabha/Panchayat Samiti/ Zila Parishad.

My name is entered at Serial No ..... in the electoral roll for  
.....constituency of.....  
Gram Sabha/Panchayat Samiti/Zila Parishad.

Date .....

Name and Signature of Proposer.

I ..... the above mentioned candidate, assent to this nomination  
and hereby declare that-

(a) I have completed ..... years of age.

(b) I have not encroached upon any land belonging to or taken on lease or requisitioned  
by, or on behalf of, the State Government, Municipality, Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila  
Parishad or a Co-operative Society and also do not suffer from any other disqualifications under the  
Act.

(c) I further declare that I am a member of the..... Caste/Tribe which is a  
Scheduled Caste/Tribe.

(d) I have enclosed “No Dues Certificate” duly issued by the competent authority as  
required under rule 35(2) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994.

Signature of Candidate.

Place.....

Date .....

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper ..... this nomination paper was delivered to me at ..... (Place) at ..... (hour) on ..... by the ..... \* candidate/proposer.

Date.....

Returning Officer

(Decision of the Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper).

I have examined this nomination paper in accordance with law and decide as follows:-

Date .....

Returning Officer

The nomination paper of the above candidate has neither been rejected nor he has withdrawn his candidature and therefore ..... (name of symbol) is hereby allotted to him.

Date.....

Returning Officer

### RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE OF SCRUTINY AND WITHDRAWAL

(To be handed over to the person presenting this nomination paper)

Serial No. of nomination paper .....

The nomination paper of..... a candidate for election of or \*member/Pradhan/Up-Pradhan of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti/member of Zila parishad from.....constituency of ..... Gram Sabha ..... Constituency of Panchayat Samiti ..... Constituency of.....Zila Parishad delivered to me at my office at..... (hour) on..... (date) by the candidate/proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at ..... (hours) on .....(date) at..... (place).

The candidature may be withdrawn upto.....(hours) ..... (date). The symbol may be allotted immediately after the expiry of time fixed for withdrawal.

Date .....

Returning Officer

\*Score out the words not applicable.”.

**5. Insertion of Form-18 A.**—After Form-18, appended to the said rules, the following new form 18-A shall be inserted, namely:-

**“Form 18-A  
[see rule 35 (2)]**

**No Dues Certificate**

Office of the Gram Panchayat/Panchayat Samiti/ Zila Parishad ..... District.....

Certified that no arrears of tax imposed by the Panchayat or arrears of any kind due to the Sabha, Samiti or Zila Parishad or retained amount which forms the part of Sabha, Samiti or Zila Parishad fund are due from Sh/Smt/Kumari ..... S/o/D/o/W/o Sh.....Resident of Gram Panchayat.....Village .....Post Office.....Development Block ..... Distt....., Himachal Pradesh as per the Panchayat record.

Secretary,  
Zila Parishad/Panchayat Samiti.....  
Secretary/Sahayak.....  
Gram Panchayat.....  
Development Block .....  
District .....

**Note:-** \* Certificate issued by the Gram Panchayat shall be countersigned by the Executive Officer, Panchayat Samiti.

\*\* Strike out whichever is not applicable.”.

By order,  
Sd/-  
Pr. Secretary (Panchayati Raj).

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 19 दिसम्बर, 2013

संख्या 1—479/96—फिन(एल0ए0)—खण्ड—8232.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.1.2002 का अधिक्रमण करते हुए विभाग में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीडन के मामलों के निपटारे हेतु निम्न प्रकार से समिति के गठन की सहर्ष घोषणा करती है :—

- |   |         |
|---|---------|
| 1. श्रीमती निर्मला वर्मा, अनुभाग अधिकारी  | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती पूजा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक      | सदस्य   |
| 3. श्रीमती राधा देवी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक | सदस्य   |

हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (वित्त)।

## परिवहन विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 2013

संख्या टी0पी0टी0-ए(2)2/2003-पार्ट-IV.—हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्याक 4) की अनुसूची-1 में संशोधनों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित प्रारूप संशोधन को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 19-10-2013 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3-ग की उपधारा (1)के उपबन्धों के अनुसरण में, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आक्षेप (पों)/सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 29-10-2013 को प्रकाशित किया गया था ;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर जन साधारण से प्राप्त हुए आक्षेप (पों)/सुझाव(वों) पर सरकार द्वारा विचार किया गया और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 3-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधनों को कार्यान्वित करती है, अर्थात् :-

**अनुसूची-1 का प्रतिस्थापन**—उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

## "अनुसूची-1

क्रम संख्या	यानों का विवरण	कर की वार्षिक दर
1.	2. <b>माल वाहन (गुडज़ कैरिज)</b>	3.
	(1) हल्के मोटरयान	15,000 /— रूपए
	(2) मध्यम मोटरयान	20,000 /— रूपए
	(3) भारी मोटरयान	30,000 /— रूपए
2.	<b>मंजली गाड़ियाँ (स्टेज कैरिज)</b>	
	(1)साधारण/रूपए एकप्रेस/सेमीडीलक्स/वातानु-कुलित बसें	38,500 /—
	(2) मिनी बसें	27,500 /— रूपए
3.	<b>संविदा गाड़ियाँ (कांट्रैक्ट कैरिज)</b>	
	(1) मैक्सी कैब्ज	22,500 /— रूपए
	(2) मोटर कैब्ज	15,000 /— रूपए
	(3) ऑटो रिक्शा	7,500 /— रूपए
	(4) कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए बसें	75,000 /— रूपए
4.	समस्त प्राईवेट (निजी) संस्थाओं के स्वामीत्वाधीन निजी सेवायान/बसें और उपर्युक्त क्रम संख्या 2 और 3 के अधीन न आने वाली अन्य बसें	45,000 /— रूपए
5.	वाणिज्यिक संगठन के स्वामित्व वाली प्राईवेट (निजी) सेवा मोटर कैब्ज तथा जिनका प्रयोग भाड़े के लिए या पारिश्रमिक के लिए पाबन्दी से अन्यथा ऐसे यानों	18,000 /— रूपए

	के स्वामी की ओर से उसके व्यापार या कारबार के लिए या उसके सम्बन्ध में व्यक्तियों को लाने ले जाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है	
6.	<b>सन्निर्माण उपस्कर यान एवं क्रेन माउंटिड यान</b>	
	(i) हल्का (7.5 टन से अनधिक अधिकतम परिमाण)	30,000 /— रूपए
	(ii) मध्यम (7.5 टन से अनधिक अधिकतम परिमाण, परन्तु 12 टन से अधिक नहीं)	45,000 /— रूपए
	(iii) भारी (12 टन से अधिक अधिकतम परिमाण)	60,000 /— रूपये
7.	<b>रिकवरी वैन</b>	
	(i) हल्का (7.5 टन से अनधिक अधिकतम परिमाण)	22,500 /— रूपए
	(ii) मध्यम (7.5 टन से अधिक अधिकतम परिमाण परन्तु 12 टन से अधिक नहीं)	22,500 /— रूपए
	(iii) भारी (12 टन से अधिक अधिकतम परिमाण)	22,500 /— रूपए
8.	<b>रोगी वाहन</b>	2000 /— रूपए
9.	<b>शव वाहन (डैड बॉडी वैन)</b>	2000 /— रूपए”

आदेश द्वारा,  
(के. संजय मूर्ति)  
प्रधान सचिव (परिवहन)।

*[Authoritative English Text of this department Notification NO. TPT-A(2)2/2003-Part-IV, dated 2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].*

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 18<sup>th</sup> Decxember, 2013*

**File No.TPT-A(2)2/2003-Part-IV.**—Whereas the draft amendment, regarding carrying out amendment in Schedule –I to the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 29-10-2013, vide this department notification of even number dated 19-10-2013, in pursuance of the provisions of sub-section (1) section 3-C of the said Act for inviting objection(s)/suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby within a period of seven days from the date of publication of the said notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

And whereas the Government has considered the objection (s)/suggestion(s) received from the general public within the above stipulated period and rejected the same.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of section 3-C of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to carry out the following amendment in Schedule-I to the Act *ibid*, namely:-

**Substitution of Schedule-I.**— For Schedule-I appended to the said Act, the following shall be substituted, namely:-

**“Schedule-I**

Sr. No.	Description of vehicle	Annual Rate of Tax
1	2	3
<b>1.</b>	<b>GOODS CARRIAGES</b>	
	(1) Light Motor Vehicles	Rs. 15000/-
	(2) Medium Motor Vehicles	Rs. 20,000/-
	(3) Heavy Motor Vehicles	Rs.30,000/-
<b>2.</b>	<b>STAGE CARRIAGES</b>	
	(1) Ordinary/express/Semi deluxe/Air Conditioned buses	Rs. 38,500/-
	(2) Mini Buses	Rs. 27,500/-
<b>3.</b>	<b>CONTRACT CARRIAGES</b>	
	(1) Maxi Cabs.	Rs. 22,500/-
	(2) Motor Cabs	Rs.15,000/-
	(3) Auto Rickshaws	Rs.7,500/-
	(4) Buses for Contract Carriage	Rs. 75,000/-
4.	Private Service Vehicles/buses owned by all private Institutions and other buses not covered under Sr. No. 2 & 3 above.	Rs. 45,000/-
5.	Private Service Motor Cabs owned by Commercial organization and used for the purpose of carrying persons on behalf of the owner of the such Vehicles for or in connection with his trade or business otherwise ban for hire and reward.	Rs.18,000/-
6.	<b>CONSTRUCTION EQUIPMENT VEHICLES AND CRANE MOUNTED VEHICLES</b>	
	(i) Light (Maximum mass not exceeding 7.5 tonnes)	Rs. 30,000/-
	(ii) Medium(Maximum mass exceeding 7.5 tonnes but not more than 12 tonnes)	Rs. 45,000/-
	(iii) Heavy(Maximum mass exceeding 12 tonnes)	Rs. 60,000/-
7.	<b>RECOVERY VANS</b>	
	(i) Light (Maximum mass not exceeding 7.5 tonnes)	Rs. 22,500/-
	(ii)Medium(Maximum mass exceeding 7.5 tonnes but not more than 12 tonnes)	Rs. 22,500/-
	(iii) Heavy(Maximum mass exceeding 12 tonnes)	Rs. 22,500/-
8.	Ambulances	Rs. 2000/-
9.	Hearse(Dead body van)	Rs. 2000/-

By order,  
(K. SANJAY MURTHY),  
Principal Secretary (Transport).

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 नवम्बर, 2013

संख्या एल.सी.डी.-एफ (5)-2/2001-2.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बैटनी कैसल को सरकारी व्यय पर शहरी संग्रहालय एवं जनसाधारण के

मनोरंजन के प्रयोजन हेतु नामतः उप-मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला (शहरी) जिला शिमला, निम्नलिखित भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतःएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन अपेक्षित हैं।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो, इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इस इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) शिमला शहरी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

क्र०सं०	तहसील	उप-मोहाल का नाम	जिला	खसरा नं०	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1.	शिमला (शहरी)	काली बाड़ी	शिमला	886	50-49
				887	12-96
				888	18-56
				889	147-92
				890	21-56
				891	18-60
				892	115-60
				893	1294-83
				894	591-22
				895	1-69
				896	1583-86
				897	6-95
				898	10-15
				कित्ता-13	3874-39(5-3 बीघा)

आदेश द्वारा,  
उपमा चौधरी,  
प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति)।

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 नवम्बर, 2013

संख्या एल.सी.डी.-सी (10)-6/2005.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल माहोरी और भोग शिमला

(ग्रामीण), जिला शिमला, में श्री तारा देवी मन्दिर के विस्तार एवं सौन्दर्यकरण हेतु निम्नलिखित भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतःएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन अपेक्षित हैं।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो, इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इस इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) शिमला (ग्रामीण) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

क्र०सं०	तहसील	मौजा	जिला	खसरा नं०	रक्वा हैक्टेयर	बीघा
1.	शिमला (ग्रामीण)	माहोरी	शिमला	1 / 1 / 1	1-16-60	13-17
2.	शिमला (ग्रामीण)	भोग	शिमला	11 / 1	0-70-08	8-6
				कित्ता-2	1-86-68	22-3

आदेश द्वारा,  
(डा० पी० सी० कपूर),  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा-संस्कृति)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

1. श्री रमेश कुमार सुपुत्र स्व० श्री रणबीर देव, निवासी ग्राम मंडोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

1. श्री भगवान सिंह पुत्र स्व० श्री मंगत राम, निवासी अस्तान्दली, तहसील जुब्बल, 2. श्री ओंकार चन्द पुत्र स्व० श्री मोती राम, निवासी अस्तान्दली, तहसील जुब्बल, 3. श्री राम गोपाल पुत्र स्व० श्री प्रकाश चन्द, निवासी अस्तान्दली, तहसील जुब्बल, 4. श्री पंकज कुमार पुत्र स्व० श्री प्रकाश चन्द, निवासी अस्तान्दली, तहसील जुब्बल, 5. श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व० श्री बशेर चन्द, निवासी अस्तान्दली, तहसील जुब्बल प्रत्यार्थीगण।

दरखास्त दुरुस्ती इन्द्राज कब्जा काश्त माल कागजात बनाम प्रार्थी बाबत भूमि खसरा नम्बर 1158 व 1159, वाका चक मंडोल, तहसील जुब्बल।

विषय उपरोक्त में प्रार्थी श्री रमेश कुमार सुपुत्र स्व० श्री रणबीर देव, निवासी ग्राम मंडोल, तहसील जुब्बल ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजार रखी है जिसमें प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि की माल कागजात में दुरुस्ती चाही है। प्रतिवादीगणों/प्रत्यार्थियों को इस अदालत से समन जारी किए गए परन्तु समनों की तामील साधारण तरीका से नहीं हो रही है। अदालत को विश्वास हो चुका है कि समनो की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती है। इसलिए इशतहार जारी किया जाना आवश्यक है।



अतः इस इशतहार के माध्यम से उपरोक्त प्रत्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मुकद्दमें की पैरवी करने हेतु दिनांक 16-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,  
जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

तारीख रजुआ : 6-12-2013.

सुलेमान पुत्र अल्फदीन, निवासी गांव व डा0 झजरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 21-11-2012 को रीना कुरैशी पुत्री दिलशाद अहमद, निवासी वार्ड नं0 3, नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन के साथ हुई है

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि सुलेमान पुत्र अल्फदीन व रीना कुरैशी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत नवांग्रांव में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-1-2014 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 22-1-2014 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

**Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Smt. Premawati w/o Shri Gopal Dass, r/o V.P.O. Patta Brawari, Tehsil and District Solan  
(H. P.) . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas applicant Smt. Premawati w/o Shri Gopal Dass, r/o V.P.O. Patta Brawari, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of her name Premawati in the record of Gram Panchayat Patta Brawari, as her name has entered in Gram Panchayat Patta Brawari record as Geeta Devi, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of above Premawati in the record of Secretary Gram Panchayat Patta Brawari, Solan in writing to this office. The objections should reach this office on or before 19-1-2014 positively otherwise necessary order will be passed to correct her name in the concerned office.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.*